



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1426]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2007/कार्तिक 25, 1929

No. 1426]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2007/KARTIKA 25, 1929

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2007

का.आ. 1958(अ).—केंद्रीय सरकार, अग्रिम संधिदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन राजधानी ऑयल्स एंड आयलसीड्स एक्सचेंज लि., नई दिल्ली द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को रेपसीड/सरसों, इसके तेल और खली में अग्रिम संधिदा के संबंध में 1 मार्च, 2008 से 28 फरवरी, 2011 तक (दोनों दिन शामिल) तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता के नवीनीकरण की मंजूरी प्रदान करते हैं।

2. एतद्वारा मान्यता का नवीनीकरण इस शर्त के अध्वधीन किया जाता है कि उक्त एक्सचेंज वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करेगी।

[फा. सं. 12/9/2001-आई टी]

डी. एस. कोलमकर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD
AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2007

S.O. 1958(E).—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by Rajdhani Oils and Oilseeds Exchange Ltd., Delhi and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in public interest to do so, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, renewal to the said Exchange for a further period of three years from 1st March, 2008 to 28th February, 2011 (both days inclusive) in respect of forward contracts in Rapeseed/Mustardseed, its Oils and Oilcakes.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F.No. 12/9/2001-IT]

D. S. KOLAMKAR, Economic Advisor